

जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट सं0-38 , दिनांक 02.12.2022

थाना कालपी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का 24 घंटे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये 02 शातिर अन्तर्जनपदीय चोरों को चोरी के माल एवं अवैध असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण –

- 1- महबूब आलम पुत्र इस्माइल निवासी मोहल्ला बाबूपुरवा जनपद कानपुर नगर हाल पता मोहल्ला राजघाट थाना कालपी जनपद जालौन।
- 2- सादाब आलम पुत्र मो0 अहमद निवासी मोहल्ला बाबूपुरवा जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी का विवरण –

- 1-106 अदद चोरी की शर्ट।
- 3- 02 अदद तमंचा 315 बोर
- 4- 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 5- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.12.2022 को वादी श्री अखलाक अंसारी पुत्र इस्माइल अंसारी निवासी मोहल्ला मिर्जा मण्डी थाना कोत0 कालपी जनपद जालौन ने तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 30.11/01.12.2022 की रात्रि में मोहल्ला दमदमा कस्वा कालपी में स्थित मेरी गोदाम से अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर 106 शर्ट चोरी कर लीं हैं, जिसके सम्बन्ध में थाना कोत0 कालपी पर मु0अ0स0 221/22 धारा 457/380 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा उक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कालपी के नेतृत्व में थाना कोत0 कालपी पुलिस टीम को लगाया गया था।

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय –

दिनांक 02.12.2022 को थाना कोत0 कालपी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर आस्था ढावा के पास से आज दिनांक 02.12.2022 समय करीब 08.40 बजे अभियुक्तगणों को चोरी के माल एवं अवैध असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम लोग नशा करते हैं और पैसा न होने के कारण शराब पीने एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिये हम लोग चोरी करते हैं हम लोगों ने दिनांक 30.11/01.12.22 की रात्रि में कस्वा कालपी की एक गोदाम से ताला तोड़कर 106 शर्ट चोरी किये थे आज हम लोग चोरी की शर्टों को बेंचने के लिये जा रहे थे कि आप द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास की जानकारी आसपास के जनपदों एवं अन्य प्रान्तों से की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- नि० श्री उदयवीर सिंह थाना कोत० कालपी जनपद जालौन ।
- 2- उ०नि० श्री सिगदार सिंह थाना कोत० कालपी जनपद जालौन ।
- 3-का० 1188 इदरीश थाना कोत० कालपी जनपद जालौन ।
- 4-का० 207 अशोक सिंह थाना कोत० कालपी जनपद जालौन ।
- 5- का० 1865 रवि प्रकाश थाना कोत० कालपी जनपद जालौन ।
- 6-आरक्षी चालक अनुज कुमार थाना कोत० कालपी जनपद जालौन ।